



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019 (KARTIKA 8, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

संख्या 01/10/2019-HSVP/1.— हालांकि, हरियाणा सरकार के द्वारा ज्ञापन संख्या 9/16/05-3 भ० एवं स० (क०) दिनांकित 19 अक्टूबर, 2009 के माध्यम से अधिसूचित हरियाणा लो० नि० वि० संहिता (1 नवम्बर, 2009 से लागू) में विभिन्न कार्यों/सम्पत्तियों के संचालन एवं संरक्षण सेवाओं के विनियमन को परिभाषित किया गया है, जिसमें कि विभिन्न स्तर के अधिकारियों को कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

उपरोक्त के अनुसरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 1 नवम्बर, 2009 से मंडल के कार्यकारी अभियंता को उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों/सम्पत्तियों के संचालन एवं संरक्षण के विनियम के साथ-साथ विभिन्न अधिनियमों व नियमों, विनियमों, अधिनियमों के अंतर्गत उपनियमों तथा किसी भी अनुदेश, जिसमें कि जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) शामिल है, के संदर्भ में अमल के लिए विभाग प्रमुख नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न नियम निर्दिष्ट किए जाते हैं:-

- (i) कार्यकारी अभियन्ता का अर्थ होगा मंडल का प्रभारी अधिकारी, जिसे कि उपरिनिर्दिष्ट संहिता में मंडल अधिकारी भी संदर्भित किया गया है।
- (ii) 'कार्य/सम्पत्ति' का अर्थ होगा सार्वजनिक सेवाएँ देने के लिए संरचना अथवा स्थापन, जैसे कि नलकूप, जलघर, जल उपचार संयंत्र, पम्पिंग स्टेशन, पाइपलाइन तथा अनुलग्न वस्तुएँ, मल तथा प्रवाह उपचार संयंत्र व प्रणाली, वर्षा-जल अपवाहिका, वर्षा-जल पम्पिंग स्टेशन आदि।

ए०के० सिंह,
प्रधान सचिव,
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 30th October, 2019

No. 01/10/2019-HSVP/1 Whereas, the regulation of the services of operation and maintenance of various works/assets are defined in the Haryana PWD Code, notified *vide* Haryana Government memo No. 9/16/05-3 B&R (W), dated the 19th October, 2009 (applicable with effect from 1st November, 2009), wherein, the duties and responsibilities are assigned to various level of Officers.

In pursuance of above, the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran, with effect from the 1st November, 2009 hereby designates the Executive Engineer of the Division as the Head of the Department for regulating the operation and maintenance of works/assets within his jurisdiction as well as in the context and application of various Acts and rules, regulations, bye-laws framed under the Acts and any instructions including Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and further specifies the following terms, namely:

- (i) “Executive Engineer” shall mean an Officer in-charge of a Division who is also referred as “Divisional Officer” under the said Code;
- (ii) “Work/Asset” shall mean structure or installation such as tube-well, water works, water treatment plant, pumping station, pipe line and appurtenance, sewage and effluent treatment plant & system, storm water drain, storm water pumping station etc. for providing public services.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town & Country Planning Department.